



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28—फरवरी 3, 2006 (माघ 8, 1927)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28—FEBRUARY 3, 2006 (MAGHA 8, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. आर. एस. 43 (ix)/2005/1-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री संजय सिंह, भारतीय पुलिस सेवा (एजीएमयू: 90) को राज्य सभा सचिवालय में 16 जनवरी, 2006 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर 16,400-450-20,000/-रु. के वेतनमान में निदेशक (सुरक्षा) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आर. एस. 3 (i)/2006/2-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में निम्नलिखित उप सचिवों को उक्त सचिवालय में 14 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर निदेशक के ग्रेड में नियुक्त किया है:--

1. श्री सुरेन्द्र कुमार वाट्स
2. श्री एस. के. गांगुली
3. श्री दीपक गोयल

2. उपर्युक्त नियुक्तियाँ रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्वधीन होंगी।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आर. एस. 3 (i)/2006/3-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अवर सचिव, श्री हरीश चन्द्र सेठी को उक्त सचिवालय में 14 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर उप सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. सर्वश्री नरेन्द्र सिंह वालिया और प्रताप चन्द्र पाइकराय, जिन्हें पहले क्रमशः दिनांक 8 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. आर. एस./3(i)/2004/71-कार्मिक तथा दिनांक 17 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. आर. एस./3(i)/2005/15-कार्मिक के द्वारा तदर्थ आधार पर उप सचिवों के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब

14 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आर. एस. 3 (i)/2006/4-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिश्लासी अधिकारी श्री महेश चंद्र तिवारी को उक्त सचिवालय में 14 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अवर सचिव के ग्रेड में मौजूद अवकाश-रिक्त के कारण इस ग्रेड में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री विमल कुमार और श्रीमति संतोष ढीगरा, जिन्हें पहले क्रमशः दिनांक 22 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. आर. एस./3(i)/2004/93-कार्मिक तथा दिनांक 19 मई, 2005 की अधिसूचना सं. आर. एस./3(i)/2005/29-कार्मिक के द्वारा तदर्थ आधार पर अवर सचिवों के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 14 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

सं. आर. एस. 3 (ix)/2006/5-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में मुद्रण और प्रकाशन सहायक नियंत्रक श्री वाई. एस. रावत को 14 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में मुद्रण और प्रकाशन नियंत्रक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

#### लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

सं. पी.एफ.2552(3)/जीएन-5586/एएन-I/2005--डा. (श्रीमती) देवयानी सिंह द्वारा कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के पद से दिया गया त्यागपत्र 15 सितम्बर 2005 (अपराह्न) से स्वीकार कर लिया गया है।

2. डा. (श्रीमती) देवयानी सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप वह लोक सभा सचिवालय में की गई अपनी सेवाओं के आधार पर प्रोद्भूत सभी अधिकार और विशेषाधिकार खो देंगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. एफ.23/21/2005/जी. एन.-5591/ए एन-I--अध्यक्ष महोदय निम्नलिखित वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायकों, जिन्हें 13 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या जी एन.-5533/2005 के द्वारा

तदर्थ आधार पर कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, को 8,000-275-13,500 रु. के वेतनमान में नीचे दर्शाए गए क्रम में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर 27 दिसम्बर, 2005 से अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री एम. डी. डुटेजा

2. श्रीमती मीनाक्षी आर.

3. श्रीमती सुधा कपूर

2. वे कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में 27.12.2005 से 26.12.2007 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सी एस संख्या पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. एफ 23/21/2005/जीएन-5592/एएन-I--अध्यक्ष महोदय 7,450-11,500 रु. के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायकों को 8,000-275-13,500 रु. के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में स्थानापन्न आधार पर 27 दिसम्बर, 2005 से अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती सविता शर्मा

2. श्रीमती रुष्मा गुप्ता

3. श्री विजय प्रदीप बरवा

4. श्री सोना

5. श्री वी. के. शैलोन

6. श्री ए. शिवनंदम

7. श्री कवि राज

2. वे कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में 27.12.2005 से 26.12.2007 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एण्ड सी एस संख्या पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. एफ 23/21/2005/जीएन-5593/एएन-I--अध्यक्ष महोदय 7,450-11,500/-रु. के वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायक श्रीमती रंगमणि नरसिंहन को 8,000-275-13,500/-रु. के वेतनमान में

कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में स्थानापन्न आधार पर 27 दिसम्बर, 2005 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. ए-19013/03/2005-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री डी. बालानुजन (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक संवर्ग) को तदर्थ आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में 30 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से अगले आदेशों तक वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. एस. यादव, अवर सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. 1(7)/72-प्रशासन-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री धनीराम, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय दिनांक 31.12.2005 अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

विजय खन्ना, उप सचिव

दिनांक 02 जनवरी 2006

सं. 3(15)/97-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री चंपक चटर्जी, आई.ए.एस. (पं.बं. : 71) को दिनांक 01.01.2006 की पूर्वाह्न से संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

विजय खन्ना, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. एफ. 6(1955)/2005-प्रशासन-I--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 06.12.2005 के आदेश सं. 11016/2/2005-आई.ई.एस. के तहत आई.ई.एस. के एस.टी.एस. से जे.ए.जी. में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, श्री बल राम ने दिनांक 23.12.2005 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में 12000-375-16500 रु. के वेतनमान में उप सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. एफ. 6(1956)/2006-प्रशासन-I--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 06.12.2005 के आदेश सं. 11016/2/2005-आई.ई.एस. के तहत आई.ई.एस. के एस.टी.एस. से जे.ए.जी. में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, श्री इन्दर सेन नेगी ने दिनांक 29.12.2005 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में 12000-375-16500/- रु. के वेतनमान में उप सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सं. एफ. 6(1957)/2006-प्रशासन-I--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 06.12.2005 के आदेश सं. 11016/2/2005-आई.ई.एस. के तहत आई.ई.एस. के एस.टी.एस. से जे.ए.जी. में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, श्री श्रवण कुमार ने दिनांक 23.12.2005 (अपराह्न) से योजना आयोग में 12000-375-16500/- रु. के वेतनमान में उप सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सं. एफ. 6(1958)/2006-प्रशासन-I--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 06.12.2005 के आदेश सं. 11016/2/2005-आई.ई.एस. के तहत आई.ई.एस. के एस.टी.एस. से जे.ए.जी. में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, सुश्री शशि किरण बैजल ने दिनांक 23.12.2005 (अपराह्न) से योजना आयोग में 12000-375-16500/- रु. के वेतनमान में उप सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 05 जनवरी 2006

सं. ए-12022/3/2005-प्रशा-IV--राष्ट्रपति, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गुवाहाटी में आर्थिक अधिकारी, श्री ए. के. ठाकुर को गुवाहाटी में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन कार्यालय में इस आयोग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 नवम्बर, 2005 में निहित शर्तों पर भारतीय आर्थिक सेवा, समूह क (राजपत्रित) से संबद्ध कैडर पद, अनुसंधान अधिकारी के पद पर 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 24 नवंबर, 2005 (अपराह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

सं. ए-12022/3/2005-प्रशा-IV--राष्ट्रपति, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ में आर्थिक अधिकारी, श्री अनुराग भटनागर को पटना में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन कार्यालय में इस आयोग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 नवम्बर, 2005 में निहित शर्तों पर भारतीय आर्थिक सेवा, समूह क (राजपत्रित) से संबद्ध कैडर पद, अनुसंधान अधिकारी के पद पर 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. ए-12026/11/2005-प्रशा.-I (वि.वि.)--विधायी विभाग में सक्षम प्राधिकारी, राजभाषा खण्ड के पुस्तकालय सूचना सहायक श्रीमती चम्पा

बिष्ट को 3 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से छः महीने की अवधि के लिए अथवा रिक्ति के रहने तक, जो भी पहले हो, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के उक्त खण्ड में रुपये 6500-200-10500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर पुस्तकाध्यक्ष (हिन्दी शाखा) के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें पुस्तकाध्यक्ष (हिन्दी शाखा) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा की गई सेवाओं की गणना उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

वी. रविन्द्रन, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. ए. 32014/1/2006-प्रशा.-I (वि.वि.)--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर सचिव, श्रीमती रेणु सिन्हा, सहायक (विधि) को जो वर्तमान में विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर अधीक्षक (विधि) के पद पर कार्यरत हैं, दिनांक 09 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में रुपये 7500-250-12000/- के वेतनमान में नियमित आधार पर अधीक्षक (विधि) के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

वी. रविन्द्रन, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. ए-32014/03/2002-प्रशा. 1 (क)--इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 के आंशिक संशोधन में, क्रम सं. 2 पर दिए गए नाम श्री बी. पी. महाजन को विलोपित समझा जाए क्योंकि वे दिनांक 31.12.2005 को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होने को हैं।

मुनीश गिरधर, अवर सचिव

नई दिल्ली- 1, दिनांक 6 जनवरी 2006

सं. 14031/1/2003-यूटीएस--संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1970 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एस. सी. शर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विक्रम देव दत्त, उप सचिव

सं. 14031/1/2003-यूटीएस--संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री जी. के. मारवाह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विक्रम देव दत्त, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. 14016/7/93-यू. टी. एस.-II--संयुक्त सचिव (यू. टी.), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ख) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के तत्कालीन निरीक्षक श्री एच. के. यादव को 10 मई, 2000 से दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं। इस नियुक्ति के बाद उनका नाम गृह मंत्रालय की दिनांक 10 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 14016/7/93-यूटीएस-II में श्री गोबिन्द के नाम के नीचे तथा श्री शिव लाल सिंह के नाम के ऊपर क्रम सं. 78क पर लिखा जाएगा।

रजनीश तिगल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. 20/जी/2731-प्रशा.I--राष्ट्रपति, श्रीमती भामथी बालासुब्रमण्यम, भा. प्र. से. (बिहार: 79) को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 6 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2006

सं. 20/जी/2732-प्रशा.I--राष्ट्रपति, श्री बी. मुरली कुमार, आई.आर. एस. (आई.टी.83) को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 9 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से उनकी केन्द्र में शेष बची प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए अर्थात् 02.04.2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

सं. 20/जी/2733-प्रशा.I--राष्ट्रपति, श्री विपिन कुमार सक्सेना, भा.प्र. से. (उडीसा: 85) को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 9 जनवरी, 2006 के अपराह्न से उनकी केन्द्र में शेष बची प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए अर्थात् 18.11.2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2006

शुद्धि-पत्र

सं. आई-14013/8/2004-आई.पी. एस.-1--इस मंत्रालय की दिनांक 10.01.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के पहले पैरा की दूसरी पंक्ति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुनरीक्षा चयन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किये जाने की तारीख को कृपया 06.01.2005 के स्थान पर 06.01.2006 पढ़ा जाए।

वाई.पी. ढींगरा, अवर सचिव

## (राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. 14034/77/2004-रा.भा.(प्रशि.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में श्री डी. एन. बिष्ट, सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि) को हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में उप निदेशक (हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि) के पद पर, रुपये 10000-325-15200 के वेतनमान में, पदोन्नति पर, दिनांक 2 जनवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. रमणन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2006

सं. 14015/02/2005-अ.भा.से.(i)ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के मिजोरम खंड के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों सर्वश्री एच. पी. साहू, एन. एल. चकमा, लालूंगमौना (अनुसूचित जनजाति) को वर्ष 2005 की रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के मिजोरम खंड में आबंटित करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/02/2005-अ.भा.से.(i)क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के मिजोरम खंड में वर्ष 2005 के संबंध में 03 (तीन) रिक्तियां भरने हेतु चयन समिति द्वारा 01 सितम्बर, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के मिजोरम खंड की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम वाली वर्ष, 2005 की प्रवर सूची दिनांक 06 जनवरी, 2006 को अनुमोदित कर दी है।

## प्रवर सूची 2005

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	एच. पी. साहू	06.07.1952
2.	एन. एल. चकमा	23.10.1953
3.	लालूंगमौना (अनुसूचित जनजाति)	30.06.1951
		जगन लाल, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

सं. 142 : (फा. सं. ए-19012/2/2001-प्रशा. 1--भारत सरकार राजस्व विभाग में उप सचिव श्री सूरज प्रकाश शर्मा के दिनांक 29.11.2005 को हुए निधन को सखेद सूचित करती है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

वित्तीय आसूचना एकक--भारत

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

सं. 2-4/2005-एफ.आई. यू.-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री बी. एस. राणा को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की वित्तीय आसूचना एकक--भारत में 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 30 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो प्रतिनियुक्ति पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. ए.32013/2/2003/प्रशा.1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव श्री अशोक कुमार को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 31.12.2005 के पूर्वाह्न से 30.06.2006 अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10000-325-15200/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निजी सचिव (प्रधान निजी सचिव के रूप में) नियुक्त करते हैं।

श्री अशोक कुमार की उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और यह उन्हें प्रधान निजी सचिव रूप में बने रहने या इसमें किसी वरिष्ठता का कोई दावा उन्हें प्रदान नहीं करेगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2006

सं. पीएफजी (2184)-प्रशा.1/2006--राष्ट्रपति, श्री गोविन्द मोहन, आईएस (एस के : 89) को दिनांक 09 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2006

सं. ए.20016/1/85-प्रशा.11--राष्ट्रपति, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग में 5500-175-9000/- रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक श्री डी. के. शर्मा को दिनांक 05.09.2005 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के स्तरोन्नत पद पर 6500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2005

सं. पीएफजी (835)/2002-प्रशा.1--इस मंत्रालय के दिनांक 30.09.2005 के कार्यालय आदेश सं. ए-22011/19/2004-प्रशा.-II के द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, कानपुर के पद से स्थानांतरण के उपरान्त श्री बी. के. बंसल, भारतीय कम्पनी विधि सेवा के अधिकारी, ने कम्पनी कार्य मंत्रालय के मुख्यालय दिनांक 19.10.2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक संयुक्त निदेशक (जांच) का पदभार ग्रहण कर लिया है।

निम्मी धर, अवर सचिव

दिनांक 14 दिसम्बर 2005

सं. पीएफजी (895)/05-प्रशासन I--आर्थिक कार्य विभाग के आदेश सं. 13016/1/2005-आईईएस, दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 के द्वारा कम्पनी कार्य मंत्रालय में निदेशक के पद पर पदस्थापना के फलस्वरूप, श्री रमेश चन्द्रा, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के एनएफएसजी स्तर के अधिकारी ने कंपनी कार्य मंत्रालय में 09.12.2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

निम्मी धर, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

सं. 33/2005 (ए-12025/2/2005-ई-1)--राष्ट्रपति द्वारा श्री राजन कनौजिया, जो इससे पूर्व प्रधान लेखा कार्यालय, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग में सहायक निदेशक (लेखा) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 08 नवम्बर 2005

शुद्धि-पत्र

सं. ए-32019/1/2001-व्य. 1--इस विभाग की दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना संख्या में आंशिक संशोधन करते हुए तालिका में क्रम संख्या 16 को निम्नानुसार पढ़ा जाये :

क्रम सं.	नाम तथा धारित मूल पद	प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख सहित धारित तदर्थ पद	तदर्थ नियुक्ति का विस्तार (से तक)
	सर्वश्री		
16	गजराज सिंह सहायक विकास अधिकारी (इंजी.)	विकास अधिकारी (इंजी.) 05.08.1997 वरिष्ठ विकास अधिकारी (इंजी.) 01.08.2005	1.7.2005 31.7.2005 1.8.2005 31.12.2005

जय प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 14 दिसम्बर 2005

सं. ए-45011/02/2005-व्य-I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को, जिन्हें अनुभाग अधिकारी ग्रेड संयुक्त समिति विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2003 के आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग को आवंटित किया गया है, प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से अगले आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में बतौर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रैंक नंबर	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री		
1.	उमेश कुमार	054	14.9.2005
2.	आशीष कुमार पांडा	055	27.9.2005
3.	एस.के. सामंतरे	066	30.9.2005
4.	कैलाश चंद	083	14.9.2005
5.	अनिल कुमार दधीच	130	14.9.2005
6.	सुनील कुमार	137	04.10.2005
7.	राजेन्द्र कुमार	141	14.9.2005
8.	संजय प्रसाद	147	14.9.2005

अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिका (सी) सं.

13245-60/2005 श्री कैलाश चंदर एण्ड अदर्स बनाम युनियन ऑफ इंडिया एण्ड अदर्स के निष्कर्ष की शर्तों के अधीन होगी।

जय प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 7 (1) /2005-व्य. IV :--राष्ट्रपति सुश्री चारुशीला सोहोनी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 71) को 27 अक्टूबर, 2005 (पूर्वाह्न) से भारत सरकार के सचिव के रैंक में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में टैरिफ आयोग की अध्यक्ष नियुक्ति करते हैं।

जय प्रकाश, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. ए-12011/8/2005-एच.आर.-II :--राष्ट्रपति, श्री आर. एन. दास (आईडीएस-1986) को उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 11.11.2007 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर उर्वरक विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

जय प्रकाश, अवर सचिव

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. ए-19011/12/2005-स्थापना-I :--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार सचदेव को 12,000-375-16,500 रुपये के वेतनमान में नितान्त तदर्थ आधार पर दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 के पूर्वाह्न से 20.3.2006 तक अथवा जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाता है, इनमें जो भी पहले हो, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) नियुक्त करते हैं।

2. श्री सचदेव की उपर्युक्त नियुक्ति नितान्त अस्थायी और तदर्थ आधार पर है तथा संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा नहीं होगा।

आर. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. ए-12/30/2005-पी. आई. I :--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार, भा. प्र. से. (बिहार : 74) को 5 दिसम्बर, 2005 पूर्वाह्न से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

परेश जौहरी, उप सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2006

सं. फा. सं. 7/1/2006-प्रशासन--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 दिसम्बर 2005 के

आदेश सं. 5/21/2005-सी. एस.-II के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में नामित) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से कोयला मंत्रालय में स्थानान्तरण हो जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव श्री एम. एन. गोडा को कोयला मंत्रालय में 3 जनवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

एलिस कुजूर, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. ए-12022/1/2004-स्था.-1--राष्ट्रपति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में श्री रवि अग्रवाल, आई. आर. एस. (आई.टी.: 88) को दिनांक 6 जनवरी 2006 के अपराह्न से 14,300--18,300 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष के लिये अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मो. मोनीरुज्जमान, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 2 जनवरी 2006

सं. ए-32022/02/2005-प्रशा. 1 (ए)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में श्रीमती किरन बाला कपूर, सहायक की, अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 31.12.2005 से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्हें सहायक के नियमित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिविकास बोर्ड

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 जनवरी 2006

सं. 7-7/2001/एन. ए. ई. बी./बी-vi(.)--श्री अमरजीत, निजी सचिव, वेतनमान 10,000-325-15,200 रु. द्वारा अधिवर्षिता वय प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 दिसम्बर 2005 अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं और तदनुसार उन्होंने राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निजी सचिव पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ओ. पी. जोशी, अवर सचिव

सं. 7-8/2002/एन. ए. ई. बी./बी-vi(.)--श्री वी. पी. कटूरिया, सहायक आयुक्त (वनीकी), वेतनमान 10,000-325-15,200 रु. द्वारा अधिवर्षिता वय प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 दिसम्बर 2005 अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं और तदनुसार उन्होंने राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास

बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहायक आयुक्त (चानिकी) के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ओ. पी. जोशी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. ए. 1103/02/2005--स्थापना-I राष्ट्रपति, 1 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से श्री के. सीतारमण को 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री के. सीतारमण की अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्ति सहकालिक आधार पर अथवा जब तक मंत्री जी चाहें तब तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, होगी।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. ए. 11018/01/1997.स्थापना-I.--राजभाषा विभाग के दिनांक 14.12.2005 के कार्यालय आदेश संख्या 5/3/2005. ओएल (एस) के अनुसरण में श्री के. एस. बिष्ट, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा ने 5 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद (वेतनमान 7,500-12,000) रुपये का कार्यभार संभाल लिया।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 06 जनवरी 2006

सं. ए. 38020/2/2005-सी.एच.एस-IV--सीसीएस(पेंशन) नियमावली के नियम 48-क के अन्तर्गत दिया गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस स्वीकृत होने के परिणामस्वरूप, श्री धीरेन्द्र श्री वास्तव, मैक्सिलोफेसियल सर्जन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली 14 अक्टूबर, 2005 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए।

पी. के. चक्रवर्ती, अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली-100011, दिनांक 12 जनवरी 2006

सं. ए. 12025/210/2004-सी. एच. एस.-I:--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. पम्मी चौधरी को 16.6.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/-रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. पम्मी चौधरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/220/2004-सी. एच. एस.-I:--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. नागेन्द्र शुलानिया को 15.7.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/-रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. नरेंद्र कुमार शुलानिया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

संख्या ए. 12025/222/2004-सी. एच. एस.-I:--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. दीपा शॉ को 1.7.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. दीपा शॉ को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

संख्या ए. 12025/16/2004-सी एच एस-I:--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. अशोक कुमार ठाकुर को 17.6.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500 रुपये के वेतन में अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. अशोक कुमार ठाकुर को सीजीएचएस, पटना के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 03 जनवरी 2006

संख्या ए.-38012/6/2005-प्रशासन-1.--सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप डा. वी.के.अरोडा अतिरिक्त महानिदेशक दिनांक 31.12.2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

मोहन लाल, उप निदेशक प्रशासन (एम.एल)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

सं 12022/11/2005-स्था-1.--राष्ट्रपति श्री सुनील कुमार कथूरिया जो सी एस एस एस के एक नियमित स्टेनो, ग्रेड 'ए एवं बी' (विलयित) हैं तथा मंत्रिमंडलीय सचिवालय में वैयक्तिक समुन्नयन के आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को तदर्थ आधार पर दिनांक 23.11.05 के पूर्वाह्न से 31.12.05 तक या पद के नियमित आधार भरे जाने तक या



आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उक्त अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या सी एस एस एस के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में नामित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 जनवरी 2006

सं. 12026/7/2001-स्था-11/स्था.-V.--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस विभाग के नियमित सहायक श्री पी. आर. भाटिया, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक (बजट), (6500-10,500 रु.) के पद पर कार्यरत हैं, को

समावेशन के आधार पर दिनांक 30.12.2005 (पूर्वाह्न) से, अन्य आदेश होने तक, इसी पद पर नियुक्त किया जाता है।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 जनवरी 2006

सं 32011/7/2005-स्थापना-II--राष्ट्रपति कृषि एवं सहकारिता विभाग के सहायक निदेशक (बीज) श्री डी. एस. मिश्रा को 4.1.2006 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर 10,000-15,200 रुपये के वेतनमान में सहायक आयुक्त (बीज) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधारित है और सहायक आयुक्त (बीज) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने में इस नियुक्ति का कोई लाभ नहीं होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. 12022/2/2005-स्थापना-I.--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से नियमित आधार पर कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्रम.सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची वर्ष/सूची में क्रम संख्या	नियमित नियुक्ति की प्रभावी तारीख	सी एस एस के ग्रेड में निर्धारित वरिष्ठता
	श्री/सुश्री			
1.	आर आर शर्मा	1997	1 जुलाई 1997	38
2.	आर एस सिरोहीवाल	-तदैव-	-तदैव-	63
3.	रानी तलरेजा	1999	1 जुलाई, 1999	24
4.	सतवंत सिंह	-तदैव-	-तदैव-	28
5.	पद्मजा सिंह	2000	1 जुलाई, 2000	3
6.	पुरषोत्तम कुमार	-तदैव-	-तदैव-	34

उपर्युक्त चयन सूची के उक्त अधिकारियों की नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री आर के ओझा तथा सुश्री प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा भारत संघ बनाम विजय कुमार एवं अन्य के नाम से दायर सिविल रिट याचिकाओं पर आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

के. डी. उप्रेती, उप सचिव

दिनांक 5 जनवरी 2006

सं. 27-2634/2006-स्थापना-1.--राष्ट्रपति भारतीय अर्थ सेवा (आई.ई.एस.) के उच्च प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी डा. एस एम झारवाल को 29 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग में 26,000/-रु के वेतनमान (निर्धारित) में मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं 1366-67/2004 में आनेवाले अंतिम निर्णय के अधीन है।

के. डी. उप्रेती, उप सचिव

## (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. 4-4/2003-मात्स्यकी प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री एम. अन्नामलई, सहायक निदेशक (अर्थशास्त्र) केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यकी इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर को 5.12.2005 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/-रुपए के वेतनमान में प्रोन्नति पर उप निदेशक (अर्थशास्त्र), वर्ग "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. एल. चोपड़ा, अवर सचिव

## ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2006

सं. ए- 12015/1/2002-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री लम्बोर रेंजाह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, (असम-मेघालय: 74) को 9 जनवरी 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. एस. रावत, अवर सचिव

## पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2006

सं. ए-12022/2/2005-स्था.1 (पी. आर.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में मनोनीत) में श्री आर. के. सप्ल की तदर्थ पदोन्नति की अवधि को 30.06.2006 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करते हैं।

डा. एन. के. सहगल, निदेशक

सं. ए- 12022/2/2005-स्था. 1(पी.आर.)--इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अप्रैल, 2005 के अधिकमण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निजी सचिव ग्रेड के अधिकारी श्री आर. के. सप्ल को 6 अप्रैल 2005 (पूर्वाह्न) से 30.06.2005 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंचायती राज मंत्रालय में रु. 10,000, 15,200/-के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डा. एन. के. सहगल, निदेशक

सं. ए- 12022/2/2005-स्था. 1(पी.आर.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में मनोनीत) में श्री आर. एन. खट्टर की तदर्थ पदोन्नति

की अवधि को 30.06.2006 तक, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करते हैं।

डा. एन. के. सहगल, निदेशक

सं. ए-12022/2/2005-स्था. 1(पी.आर.)--इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2005 के अधिकमण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) ग्रेड के अधिकारी श्री आर. एन. खट्टर को 28 जून 2005 (पूर्वाह्न) से 30.06.2005 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंचायती राज मंत्रालय में रु. 10,000, 15,200/-के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

डा. एन. के. सहगल, निदेशक

## युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

सं. ए 32016-1/2004.--युवा सेवा-3, संयुक्त सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन में निम्नलिखित युवा सहायक ग्रेड-1 को पूर्णतः अस्थायी आधार पर युवा अधिकारी (ग्रुप-ख राजपत्रित) के रूप में 6500-200-10,500/-रुपये के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गयी तारीख से, अगले आदेशों तक, पदोन्नत करते हैं:--

क्र. सं.	युवा सहायक ग्रेड-1 का नाम और वर्तमान तैनाती का स्थान	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री के.टी. राजकुमार राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र, चेन्नई	01.12.2005
2.	श्री दीपक शर्मा राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी	01.12.2005

एम.एम. लाल, अवर सचिव

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

सं. 3-7/2004-एन.आई. II--राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 50 और 51 के अनुसरण में, श्री जी.एन. पेगू, आई.ए.एस. (उडीसा-75), संयुक्त सचिव (विकलांगता प्रभाग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को श्रीमती जयति चन्द्रा, जिन्होंने मंत्रालय में संयुक्त सचिव का कार्यभार छोड़ दिया है, के स्थान पर राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में 16 नवम्बर, 2005 से 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सर्वेश राय, उप सचिव

सं. 3-7/2004-एन.आई.II—राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 50 और 51 के अनुसरण में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, फरीदाबाद में उप महाप्रबंधक श्री आर.एन. यादव को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, फरीदाबाद में महाप्रबंधक, श्री हर्ष कौल के स्थान पर तत्काल प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सर्वेश राय, उप सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली—110001, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

सं. पीएफ-513/प्रशा. I :—श्री बी. शिवरामकृष्णन, सदस्य (उत्पादन), दूरसंचार आयोग और भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, 31 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएंगे।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव (प्रशा. 1)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली—110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

सं. 2(2)/2005-पीए (टीए)—महानिदेशक (एसटीक्यूसी) ने श्री तारा चन्द, वैयक्तिक सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली को एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (उत्तर), नई दिल्ली में दिनांक 30.09.2005 के अपराह्न से, आरम्भतः दो वर्ष की अवधि के लिए 6500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों एवं निबन्धनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

सं. 2(2)/2005-पीए (टीए)—राष्ट्रपतिजी ने श्री पी. वी. करुणाकरण, एएओ, डाक एवं दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय, नं. 7 एथीराज सलाई, चेन्नै-600008 को एसटीक्यूसी निदेशालय, दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, चेन्नै में दिनांक 07.12.2005 के पूर्वाह्न से आरम्भतः दो वर्ष की अवधि के लिए 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों एवं निबन्धनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

डाक विभाग

नई दिल्ली—110001, दिनांक 6 जनवरी 2006

सं. 3-5/2005-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/21/2005-सीएस. II दिनांक 21.12.2005 के अनुसरण में, राष्ट्रपति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय संवर्ग के निजी सचिव श्री श्यामल मुखर्जी को डाक विभाग के सीएसएसएस संवर्ग में 10000-325-15200 रु. के वेतनमान में 06.01.2006 (पूर्वा.) से 30.06.2006 तक की अवधि के लिए अथवा जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाता है अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के तौर पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी। यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

जी. पी. पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

सं. ई. आर. बी.-1/2005/2/7--श्री एन. डी. शर्मा, संपर्क अधिकारी (हिन्दी), रेलवे बोर्ड को 12.12.2005 के पूर्वाह्न से 10,000--15,200/-रु. के ग्रेड में उप निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 23 दिसम्बर 2005

सं. ई. आर. बी.-1/2005/2/77--श्री आर. शिवदासन, भारतीय रेल लेखा सेवा, महाप्रबंधक, चिरेका को 30.11.2005 के अपराह्न से वित्त आयुक्त, रेलों एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई. आर. बी.-1/2005/2/78--श्री आर. के. राव, प्रशासनिक ग्रेड/भा. रे. या. इंजी. सेवा, दक्षिण मध्य रेलवे को 5.12.2005 के पूर्वाह्न से 24050--26000/-रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (या.इंजी.) रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई. आर. बी.-1/2004/2/86--श्री मेथ्यू जॉन, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा, सलाहकार (सतर्कता), रेलवे बोर्ड को 7.12.2005 के पूर्वाह्न से 24,050--26,000/-रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (सतर्कता), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 06 जनवरी 2006

सं. ई. आर. बी.-I/2005/2/26--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर. बी.एस.एस.) के निम्नलिखित ग्रेड-I (अवर सचिव/उप निदेशक) अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों के पूर्वाह्न से सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव/संयुक्त निदेशक : वेतनमान 12,000--16,500/-रु.) में नियुक्त किया जाता है:--

नाम	नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री	
1. एन. के. शर्मा	19.12.2005
2. रंजीत सिंह	19.12.2005
3. श्रीमती शीला वर्मा	20.12.2005

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई (ओ) III-2005/आर. एन./27--राइट्स में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री सतेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भा.रे. सि. इंजी. सेवा ने 14.12.2005 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 16 जनवरी 2006

सं. ई. आर. बी.-III/2005/2/88--श्री ए. के. सिंह, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/रेल सुरक्षा बल, उत्तर रेलवे को 23.12.2005 के पूर्वाह्न से 16,400--20,000/-रु. के ग्रेड में उप महानिरीक्षक/रेल सुरक्षा विशेष बल (ओ. पी. एस-I), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2006

सं. एल एच-21013/1/2004-एस एल--राष्ट्रपति, श्री टी. के. जोसेफ को 16.08.2005 (अपराह्न) से दीप-स्तंभ और दीप-पोत-महानिदेशालय में, अधीक्षक के ग्रेड में, 7450-225-11,500 रु. के वेतनमान में, कार्यपालक-अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करते हैं।

वी.पी. राणा, अवर सचिव

सं. एल एच-21013/1/2004-एस एल--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनमें से प्रत्येक के सामने दर्शाई जा रही तारीख से, दीप-स्तंभ और दीप-पोत-महानिदेशालय में तकनीशियन (सामान्य) के ग्रेड में 6500-200-10,500 रु. के वेतनमान में, सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नत करते हैं:--

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. श्री एम.एम. वाघेला | 04.03.2005 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्री गौतम हलदर     | 25.01.2005 (पूर्वाह्न) |

वी.पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 जनवरी 2006

सं. ए-19011/12/02-स्था.--राष्ट्रपति, श्री दिनेश कुमार, आई.सी.ए. एस. (91), उप सचिव को पोत परिवहन विभाग में 14300-400-18300 रु. जो कि उनका व्यक्तिगत आंका गया है, के वेतनमान में, दिनांक 20.12.2005 (पूर्वाह्न) से उनके केन्द्र में बाकी बचे कार्यकाल जो कि 29.07.2007 तक है अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनका केन्द्र में कार्यकाल दिनांक 29.07.2002 (अपराह्न) से गिना जाएगा।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2006

सं. ए-12025/1/2005-स्था-II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली में उनके नामों के आगे अंकित तारीख से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) वर्ग 'क' के सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रु. 8000-275-13500 रु. में नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री बिजू कुमार पाटिल	22.12.2005 (पूर्वाह्न)
2.	श्री जगत नारायण	26.12.2005 (अपराह्न)
3.	श्री सुबाष चन्द्रा	27.12.2005 (पूर्वाह्न)

बी.ना. मिश्रा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 02 जनवरी 2006

सं. के-11011/18/2005-डीडी-1ए--केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उप धारा (3) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुख्य इंजीनियर श्री ए.के. सरीन को 18400-22400 रुपये के वेतनमान में 300/- प्रतिमाह के विशेष वेतन के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण में इंजीनियर सदस्य के पद पर उनके द्वारा कार्यभार लेने की तारीख से दो वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी (डीडीए)

(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 09 जनवरी 2006

सं. ए-12025(i)/1/2005-न.ग्रा.नि.सं./प्रशा. III/श.वि.-I--इस मंत्रालय के दिनांक 5.01.2006 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अनुसरण में, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, नई दिल्ली में सह-नगर एवं ग्राम नियोजक श्री देवेन्द्र भण्डारी ने उसी संगठन में 12000-375-16500 रु. के वेतनमान में नगर एवं ग्राम नियोजक के पद (सा.के.स. ग्रुप 'क' राजपत्रित) पर दिनांक 5 जनवरी 2006 की पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सुमीत चटर्जी, अवर सचिव

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 16th January 2006

No. RS/43(ix)/2005/1-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Sanjay Singh, IPS (AGMU:90) as Director (Security) in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/- in the Rajya Sabha Secretariat on deputation basis with effect from the forenoon of the 16th January, 2006, until further orders.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/3(i)/2006/2-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following Deputy Secretaries in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Director on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 14th January, 2006, until further orders :—

1. Shri Surinder Kumar Watts
2. Shri S. K. Ganguli
3. Shri Deepak Goyal

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/3(i)/2006/3-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Harish Chander Sethi, Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Secretary on ad-hoc basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 14th January, 2006, until further orders.

2. S/Shri Narinder Singh Walia and Pratap Chandra Paikary, who were earlier appointed to officiate as Deputy Secretaries on ad-hoc basis vide Notification Nos. RS/3(i)/2004/71-Perl. dated 8th September, 2004 and RS/3(i)/2005/15-Perl. dated 17th March, 2005 respectively have now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 14th January, 2006, until further orders.

3. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/3(i)/2006/4-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Mahesh Chandra Tiwari, Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Under Secretary in that Secretariat on ad-hoc basis against a leave vacancy in that grade, with effect from the forenoon of the 14th January, 2006, until further orders.

2. Shri Vimal Kumar and Smt. Santosh Dhingra, who were earlier appointed to officiate as Under Secretaries on ad-hoc basis vide Notification Nos. RS/3(i)/2004/93-Perl. dated 22nd November, 2004 and RS/3(i)/2005/29-Perl. dated 19th May, 2005 respectively have now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 14th January, 2006, until further orders.

3. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/3(i)/2006/5-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Y. S. Rawat, Assistant Controller of Printing & Publications in the Rajya Sabha Secretariat to officiate as Controller of Printing & Publications in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 14th January, 2006 until further orders.

P. R. GUHA ROY, Dir.

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 16th December 2005

No. PF.2552(3)/GN-5586/AN-I/2005.—The resignation tendered by Dr. (Smt.) Deviyani Singh from the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer, has been accepted with effect from the afternoon of 15th September, 2005.

2. Consequent upon the acceptance of her resignation, Dr. (Smt.) Deviyani Singh will forfeit all rights and privileges accruing to her by virtue of her services rendered in the Lok Sabha Secretariat.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 30th December 2005

No. F.23/21/2005/GN-5591/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants who were appointed as Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on ad-hoc basis vide Notification No. GN-5533/2005 dated 13th September, 2005 to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity, in the order as shown below, on regular basis with effect from 27th December, 2005 until further orders :—

1. Shri M. D. Tuteja
2. Smt. Meenaksbi R.
3. Smt. Sudha Kapoor

2. They will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of two

years with effect from 27th December, 2005 upto 26th December, 2007.

3. Their inter-se seniority in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20.12.2003.

P. K GROVER, Jt. Secy.

No. F.23/21/2005/GN-5592/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants in the scale of pay of Rs. 7,450–11,500/- to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8,000–275–13,500/- in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 27th December, 2005 until further orders :—

1. Smt. Savita Sharma
2. Smt. Usha Gupta
3. Shri Vinay Pradeep Barwa
4. Shri Sona
5. Shri V. K. Shailon
6. Shri A. Sivanandam
7. Shri Kavi Raj

2. They will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of two years with effect from 27th December, 2005 upto 26th December, 2007.

3. Their inter-se seniority in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20.12.2003.

P. K GROVER, Jt. Secy.

No. F.23/21/2005/GN-5593/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Smt. K. Rangamani Narasimhan, Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistant in the scale of pay of Rs. 7,450–11,500/- to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8,000–275–13,500/- on ad-hoc basis with effect from 27th December, 2005 until further orders.

P. K GROVER, Jt. Secy.

#### CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd January 2006

No. A-19013/03/2005-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri D. Balanujan (CSSS) as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Cabinet Secretariat in the pay scale of Rs. 12,000–375–16,500/- with effect from the afternoon of 30th December, 2005 until further orders.

R. S. YADAV, Under Secy.

#### MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 30th December 2005

No. F-1(7)/72-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Dhani Ram, Deputy Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs retires from Government Services w.e.f. the afternoon of 31.12.2005.

VIJAY KHANNA, Dy. Secy.

The 2nd January 2006

No. F-3(15)/97-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Champak Chatterjee IAS (WB : 71) as Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs with effect from the forenoon of 01.01.2006.

VIJAY KHANNA, Dy. Secy.

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th December 2005

No. F-6(1955)/2005-Admn.I.—Consequent on his promotion from STS to Junior Administrative Grade of IES vide Deptt. of Economic Affairs' Order No. 11016/2/2005-IES dated 6.12.2005, Shri Bal Ram has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000–375–16,500/- w.e.f. 23.12.2005 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 4th January 2006

No. F-6(1956)/2006-Admn.I.—Consequent on his promotion from STS to Junior Administrative Grade of IES vide Deptt. of Economic Affairs' Order No. 11016/2/2005-IES dated 6.12.2005, Shri Inder Sain Negi has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000–375–16,500/- w.e.f. 29.12.2005 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. F-6(1957)/2006-Admn.I.—Consequent on his promotion from STS to Junior Administrative Grade of IES vide Deptt. of Economic Affairs' Order No. 11016/2/2005-IES dated 6.12.2005, Shri Sarvan Kumar has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000–375–16,500/- w.e.f. 23.12.2005 (AN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. F-6(1958)/2006-Admn.I.—Consequent on her promotion from STS to Junior Administrative Grade of IES vide Deptt. of Economic Affairs' Order No. 11016/2/2005-IES dated 6.12.2005, Ms. Shashi Kiran Baijal has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in

the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. 23.12.2005 (AN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 5th January 2006

No. A-12022/3/2005-Admn.IV.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Thakur, Economic Officer, Project Evaluation Office, Guwahati to the post of Research Officer, a cadre post belonging to the Indian Economic Service; Group 'A' (Gazetted) in the Project Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation, Planning Commission at Guwahati in the scale of pay Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, with effect from afternoon of 24th November, 2005 on the terms and conditions contained in this Commission's Office memorandum of even number dated 16th November, 2005.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

No. A-12022/3/2005-Admn.IV.—The President is pleased to appoint Shri Anurag Bhatnagar, Economic Officer, Regional Evaluation Office, Lucknow to the post of Research Officer, a cadre post belonging to the Indian Economic Service; Group 'A' (Gazetted) in the Project Evaluation Office of Programme Evaluation Organisation, Planning Commission at Patna in the scale of pay Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, with effect from forenoon of 13th December, 2005 on the terms and conditions contained in this Commission's Office Memorandum of even number dated 16th November, 2005.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 4th January 2006

No. A.12026/11/2005-Admn.I(L.D.).—The competent authority in the Legislative Department is pleased to appoint Smt. Champa Bisht, Library Information Assistant in the Official Languages Wing to officiate as Librarian (Hindi Branch) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the said Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis with effect from the forenoon on 3rd January, 2006 for a period of six months or till the vacancy exists, whichever is earlier.

2. This ad hoc appointment will neither bestow on her any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Librarian (Hindi Branch) nor the services so rendered by her will count for the purpose of seniority in the higher grade.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

The 10th January 2006

No. A.32014/1/2006-Admn.I(L.D.).—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Secretary is pleased to appoint Smt. Renu Sinha, Assistant (Legal), at present working as Superintendent (Legal) on ad-hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Superintendent (Legal) in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- on regular basis in the said Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 9th January, 2006 and until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th December 2005

No. A-32014/03/2002-Ad.I(A).—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated the 28th December 2005, the name of Shri V. P. Mahajan at serial number 2 is deleted as he is due for retirement on superannuation on 31.12.2005.

MUNISH GIRDHAR, Under Secy.

New Delhi-1, the 6th January 2006

No. 14031/1/2/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri S. C. Sharma, Indian Administrative Service Officer of 1970 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st December, 2005.

VIKRAM DEV DUTT, Dy. Secy.

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri G. K. Marwah, Indian Administrative Service Officer of 1984 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st December, 2005.

VIKRAM DEV DUTT, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 9th January 2006

No. 14016/7/93-UTS-II.—Under Clause (b) of Sub-rule (2) of Rule 7 read with sub rule (1) of Rule 10 of the National Capital Territory of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS), Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed Shri H. K. Yadav, the then Inspector, Delhi Police to the Entry Grade of DANIPS with effect from 10th May 2000. On such appointment, his name will appear at Sl. No. 78-A below the name Shri Govind and above the name of Shri Shiv Lal Singh in the Ministry of Home Affairs Notification No. 14016/7/93-UTS-II dated 10th May 2000.

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

New Delhi, the 16th January 2006

No. 20/G/2731-Ad.I.—The President is pleased to appoint Ms. Bhamathi Balasubramaniam, IAS (BH : 79), as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 6th January 2006, for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

J. B. SHARMA, Under Secy.

The 17th January 2006

No. 20/G/2732-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri B. Murali Kumar, IRS (IT : 83), as Director in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 9th January 2006, for the balance period of his central deputation i.e. upto 02-04-2008 or until further orders, whichever event takes place earlier.

J. B. SHARMA, Under Secy.

No. 20/G/2733-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Vipin Kumar Saxena, IAS (OR : 85), as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the afternoon of 9th January 2006, for the balance period of his central deputation tenure i.e. upto 18-11-2008 or until further orders, whichever event takes place earlier.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 18th January 2006

#### CORRIGENDUM

No. I.14013/8/2004-IPS.I.—In this Ministry's Notification of even number dated 10.01.2006, the date of approval, of the recommendations of the Review Selection Committee, by the Union Public Service Commission, as mentioned in line 3 of first para may kindly be read as 06-01-2006 instead of 06-01-2005.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 10th January 2006

No. 14034/77/2004-OL(Trg.).—The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Shri D. N. Bisht, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs as Deputy Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography), in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/-, on promotion, with effect from the forenoon of 2nd January 2006.

S. RAMANAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 12th January 2006

No. 14015/02/2005-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Sh. H. P. Sahu, N. L. Chakma and Lallungmuana (ST), members of the State Civil Service of the Mizoram segment of the AGMUT Cadre to the Indian Administrative Service against the vacancies of the year 2005 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Mizoram segment of the AGMUT Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/02/2005-AIS (I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2005 on 6th January, 2006 for Mizoram segment of the joint AGMUT Cadre, containing the names of the following members of the State Civil Service of the Mizoram segment of the AGMUT Cadre, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 1st September, 2005, towards filling up 03 (three) vacancies during 2005 in the Indian Administrative Service :—

#### SELECT LIST 2005

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	H. P. Sahu	06-07-1952
2.	N. L. Chakma	23-10-1953
3.	Lallungmuana (ST)	30-06-1951

JAGAN LAL, Under Secy.

#### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 21st December 2005

#### (HEADQUARTERS ESTABLISHMENT)

No. 142 : (F. NO. A-19012/2/2001-AD. I).—The Government of India regrets to notify the death of Shri Suraj Prakash Sharma Deputy Secretary in the Department of Revenue on 29-11-2005.

PREETI PANT, Under Secy.



## FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT—INDIA

New Delhi, the 1st December 2005

No. 2-4/2005-FIU-Admn.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Rana, as Section Officer in the Financial Intelligence Unit—India, Ministry of Finance, Department of Revenue, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 30th November, 2005 on deputation basis, initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

O. P. SHARMA, Sr. Tech. Offr. (Admn.)

## (DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 10th January 2006

No. A.32013/2/2003-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, a regular Private Secretary of the CSSS cadre to Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad-hoc basis in the Ministry of Finance, Department of Expenditure with effect from the forenoon of 30-12-2005 for the period upto 30-6-2006 or till the post is filled up on a regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The above-mentioned appointment of Shri Ashok Kumar is purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue indefinitely in the post of Principal Private Secretary or to claim seniority in that post.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 13th January 2006

No. PFG(2184)Admn.I/2006.—The President is pleased to appoint Shri Govind Mohan, IAS (SK : 89) as Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, on Central Deputation w.e.f. the forenoon of 9th January, 2006 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

No. A-20016/1/85-Ad.II.—The President is pleased to appoint Shri D. K. Sharma, Senior Library & Information Assistant, FCD, D/o Expenditure in the scale of Rs. 5,500-175-9,000/- to the upgraded post of Assistant Library & Information Officer in the pay scale of 6,500-200-10,500/- w.e.f. 5-9-2005 (FN) and until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

## MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 11th November 2005

No. PFG(835)/2002-Ad.I.—Consequent upon his transfer from the post of Registrar of Companies, Kanpur vide this

Ministry's Office Order No. A-22011/19/2004-Ad.II dated 30.09.2005, Shri B. K. Bansal, an Officer of Indian Company Law Service has assumed the charge of the post of Joint Director (Inspection) at the Headquarters of the Ministry of Company Affairs with effect from the forenoon of 19.10.2005 and until further orders.

NIMMI DHAR, Under Secy.

The 14th December 2005

No. PFG(895)/05-Ad.I.—Consequent upon his posting as Director in the Ministry of Company Affairs vide Department of Economic Affairs Order No. 13016/1/2005-IES dated 08th December, 2005, Shri Ramesh Chandra, a NFSG level Officer of the Indian Economic Service (IES), has assumed the charge of the post of Director in the Ministry of Company Affairs, with effect from the forenoon of 09.12.2005 until further orders.

NIMMI DHAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 23rd December 2005

No. 33/2005 (A-12025/2/2005-E.I).—The President is pleased to appoint Shri Rajan Kannoja, formerly Assistant Accounts Officer in the Principal Accounts Office, Ministry of Civil Aviation & Tourism to officiate as Assistant Director (Accounts) in the Department of Commerce on deputation basis with effect from the afternoon of 21st December, 2005 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

ANURAG SAXENA, Dir.

## (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 8th November 2005

## CORRIGENDUM

No. A-32019/1/2001-E.I.—In partial modification of this Department's Notification of even No. dated 27th October, 2005 the serial No. 16 in the table may be read as :—

S. No.	Name and substantive post held	Ad-hoc post held with date of initial appointment	Extension of Ad-hoc Appointment	
			From	To
	S/Shri			
16.	Gajraj Singh, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Dev. Officer (Engg.) 5.8.1997	1.7.2005	31.07.2005
		Sr. Dev. Officer (Engg.) 1.8.2005	1.8.2005	31.12.2005

JAI PRAKASH, Under Secy.

The 14th November 2005

No. A-45011/02/2005-E.I.—The President is pleased to appoint the following officers who have been allocated to the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry, on the basis of the results of the Section Officers' Grade Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2003, as Section Officers in the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion with effect from the date indicated against each until further orders :—

S. No.	Name of the Officer	Rank No.	Date of appointment
	S/Shri		
1.	Umesh Kumar	054	14-09-2005
2.	Ashish Kumar Panda	055	27-09-2005
3.	S. K. Samantaray	066	30-09-2005
4.	Kailash Chand	083	14-09-2005
5.	Anil Kumar Dadich	130	14-09-2005
6.	Sunil Kumar	137	04-10-2005
7.	Rajender Kumar	141	14-09-2005
8.	Sanjay Prasad	147	14-09-2005

The appointment of the above officers to the grade of Section Officers shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

JAI PRAKASH, Under Secy.

The 16th November 2005

No. 7(1)/2005-Estt.IV.—The President is pleased to appoint Ms. Charusheela Sohoni, IAS (MH : 71), as Chairperson, Tariff Commission, in Department of Industrial Policy and Promotion, in the rank of Secretary to the Government of India (Rs. 26000/- fixed) w.e.f. 27-10-2005 (F.N.).

JAI PRAKASH, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

##### (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 3rd January 2006

No. A-12011/8/2005-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri R. N. Dash (IDAS-1986) as Director in the Department of Fertilizers on central deputation basis w.e.f. 02-01-2006 (F/N) for the balance period of his central deputation i.e. upto 11-11-2007 or until further orders whichever event takes place earlier.

2. Hindi version follows.

JAI PREKASH, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 9th January 2006

No. A-19011/12/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Sh. Ashok Kumar Sachdev as Joint Director (OL) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- purely on ad-hoc basis in the Department of Chemicals and Petrochemicals with effect from the forenoon of 4th October, 2005 to 20-3-2006 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment of Shri Sachdev is purely temporary and on ad-hoc basis and shall not confer upon him any claim for regular appointment in the post of Joint Director (OL).

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

New Delhi, the 10th January 2006

No. 12/30/2005-PLI.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, IAS (BH : 74) as Chairman, National Pharmaceutical Pricing Authority with effect from the forenoon of 5th December 2005.

PARESH JOHRI, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 6th January 2006

F. No. 7/1/2006-Admn.—Consequent upon his transfer from Ministry of Rural Development to Ministry of Coal on promotion to the Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS on ad-hoc basis vide Ministry of Personnel, PG and Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 5/21/2005,CS-II, dated the 21st December, 2005, Shri M. N. Gowda, regular PS of CSSS has been appointed as Principal Private Secretary in the Ministry of Coal w.e.f. 3rd January, 2006 (FN) until further orders.

ALICE KUJUR, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

##### (DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 10th January 2006

No. A-12022/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Ravi Agarwal, IRS (IT : 88) as Director in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the afternoon of 6th January 2006 in the pay scale of

Rs. 14,300–18,300/- for five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

Mohd.. MONIRUZZAMAN, Under Secy.

---

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 2nd January 2006

No. A.32022/02/2005-Admn.I(A).—It has been decided by the competent authority to discontinue the term of ad-hoc appointment of Smt. Kiran Bala Kapoor, Assistant as Section Officer in the Ministry of Science & Technology with effect from the afternoon of 31-12-2005. She is reverted to her regular post of Assistant.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

---

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  
(NATIONAL AFFORESTATION AND ECO-DEVELOPMENT BOARD)

New Delhi, the 2nd January 2006

No. 7-7/2001/NAEB/B-VI.—On attaining the age of superannuation, Shri Amarjit, Private Secretary in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- has retired from Government Service in the afternoon of 31st December 2005 and accordingly he relinquished charge to the post of Private Secretary in the National Afforestation and Eco-Development Board, Ministry of Environment and Forests.

O. P. JOSHI, Under Secy.

No. 7-8/2002/NAEB/B-VI.—On attaining the age of superannuation, Shri V. P. Kathuria, Assistant Commissioner (Forestry) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15200/- has retired from Government Service in the afternoon of 31st December 2005 and accordingly he relinquished charge to the post of Assistant Commissioner (Forestry) in the National Afforestation and Eco-Development Board, Ministry of Environment and Forests.

O. P. JOSHI, Under Secy.

---

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th January 2006

No. A-11013/02/2005-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri K. Sitaraman as Additional Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the personal staff of Minister of Health & Family Welfare (Dr. Anbumani Ramadoss) in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 1st December, 2005.

The appointment of Shri K. Sitaraman as Additional Private Secretary will be on co-terminus basis i.e. for so long as desired by the Minister or until further orders, whichever is earlier.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

The 9th January 2006

No. A-11018/01/97-Estt.I.—In pursuance of Department of Official Language's Officer Order No. 5/3/2005-OL(S), dated 14.12.2005, Shri K. S. Bisht, CSOLS, assumed the charge of the post of Assistant Director (OL) (pay scale Rs. 7,500-12,000/-) with effect from the forenoon of 5th January, 2006.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

New Delhi, the 6th January 2006

No. A-38020/2/05-CHS.VI.—On acceptance of his notice of voluntary retirement given by him under Rule 48-A of the CCS (Pension) Rules, Shri Dharendra Srivastava, Maxillofacial Surgeon, Safdarjang Hospital, New Delhi, retired voluntarily from government service with effect from the forenoon of the 14th October, 2005.

P. K. CHAKRABARTI, Under Secy.

---

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 12th January 2006

No. A-12025/210/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pummy Choudhry to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 16.06.2005 until further orders. Dr. Pummy Choudhry is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/220/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nagendra Kumar Shulania to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 15.07.2005 until further orders. Dr. Nagendra Kumar Shulania is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/222/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deepa Shaw to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 1.7.2005 until further orders. Dr. Deepa Shaw is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/16/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashok Kumar Thakur to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of 17.6.2005 until further orders. Dr. Ashok Kumar Thakur is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Patna

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

#### DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 3rd January 2006

No. A-38012/6/2005-Admn.I.—Dr. V. K. Arora, Addl. Director retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.12.2005 (AN).

MOHAN LAL, Dy. Dir. Admin. (ML)

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 9th December 2005

No. 12022/11/2005-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Kathuria, a regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS holding the post of Principal Private Secretary on personal upgradation basis in the Cabinet Secretariat as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 23.11.2005 for the period upto 31.12.2005 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 12th January 2006

No. 12026/7/2001-E.II/E.V.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, and with approval of the competent authority Shri P. R. Bhatia, a regular Assistant of this Department and presently working as Assistant Director (Budget), (Rs. 6,500-10,500/-) on deputation basis is appointed to the same post on absorption basis w.e.f. 30.12.2005 (FN), until further orders.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 13th January 2006

No. 32011/7/2005-E.II.—The President is pleased to appoint Shri D.S. Mishra, Assistant Director (Seeds) in the

Department of Agriculture & Cooperation as Assistant Commissioner (Seeds), in the pay scale of Rs. 10,000-15,000/- purely on ad-hoc basis with effect from 4.1.2006 (FN), for a period of six month or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Assistant Commissioner (Seeds).

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, The 30th December 2005

No. 12022/2/2005-E.I.—The President is pleased to appoint the following officers of the Central Secretariat Service (CSS) as Under Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) on regular basis with effect from the date mentioned against each name :—

S. No.	Name of the Officer	Select List year/serial number in the list	Effective date of regular appointment	Seniority assigned in Grade-I of CSS
(Shri/Ms.)				
1.	R. R. Sharma	1997	1st July, 1997	38
2.	R. S. Sirohiwal	1997	1st July, 1997	63
3.	Rani Talreja	1999	1st July, 1999	24
4.	Satwant Singh	1999	1st July, 1999	28
5.	Padmaja Singh	2000	1st July, 2000	3
6.	Purshottan Kumar	2000	1st July, 2000	34

2. The appointment of the above mentioned officers in the aforesaid select lists is subject to the final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R. K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs Union of India & Others and Union of India Vs Vijay Kumar & others.

K.D. UPRETI, Dy. Secy.

The 5th January 2006

No. 27-2634/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Dr. S. M. Jharwal, a Higher Administrative Grade of Indian Economic Service (IES), as Principal Adviser in the scale of pay of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 29th December, 2005 in the Department of Agriculture & Cooperation.

2. The appointment is subject to the final outcome of the Civil Appeal No. 1366-67/2004 pending in the Hon'ble Supreme Court of India.

K. D. UPRETI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDARY,  
DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi-110001, the 4th January 2006

No. 4-4/2003-Fy.Admn.—The President is pleased to appoint Shri N. Annamalai, Assistant Director (Economics), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore on promotion to the post of Deputy Director (Economics), Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore with effect from 05.12.2005 (FN).

P. L. CHOPRA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi, the 9th January 2006

No. A-12015/1/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Lambor Rynjah, IAS (AM : 74) as Additional Secretary in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 9th January, 2006, until further orders.

H. C. S. RAWAT, Under Secy.

## MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 6th January 2006

No. A-12022/2/2005-Estt.I(PR).—The President is pleased to extend further the period of ad-hoc promotion of Shri R. K. Sappal to the Private Secretary Grade (Designated as Principal Private Secretary) of CSSS up to 30.06.2006 or till the post is filled on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

DR. N. K. SEHGAL, Dir.

No. A-12022/2/2005-Estt.I(PR).—In supersession of this Ministry's notification of even number dated the 7th April, 2005, the President is pleased to appoint Shri R. K. Sappal, an officer in the Private Secretary Grade of CSSS as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200/- on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 6th April, 2005 for a period up to 30.06.2005 or till the post is filled on regular basis, or till further orders whichever is earlier, in the Ministry of Panchayati Raj.

DR. N. K. SEHGAL, Dir.

No. A-12022/2/2005-Estt.I(PR).—The President is pleased to extend further the period of ad-hoc promotion of Shri R. N. Khattar to the Private Secretary Grade (Designated as Principal Private Secretary) of CSSS up to 30.06.2006 or till the post is filled on regular basis, or until further orders, whichever is earlier.

DR. N. K. SEHGAL, Dir.

No. A-12022/2/2005-Estt.I(PR).—In super session of this Ministry's notification of even number dated the 28th June, 2005, the President is pleased to appoint Shri R. N. Khattar, an officer in the Private Secretary Grade of CSSS as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200/- on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 28th June, 2005 for a period up to 30.06.2005 or till the post is filled on regular basis, or till further orders, whichever is earlier, in the Ministry of Panchayati Raj.

DR. N. K. SEHGAL, Dir.

## MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS &amp; SPORTS

New Delhi, the 9th December 2005

No. A-32016-1/2004-YS-III.—The Joint Secretary in the Ministry of Youth Affairs & Sports, New Delhi appoints following Youth Asstt. Gd. I in the National Service Scheme Organization on promotion to officiate as Youth Officer (Group B Gazetted) purely on temporary basis in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date as shown below until further orders :—

Sl. No.	Name of Youth Asstt. Gd. I and Present place of posting	Date of Promotion
1.	Shri K. T. Rajkumar NSS Regional Centre, Chennai	01.12.2005
2.	Shri Deepak Sharma NSS Regional Centre, Guwahati	01.12.2005

M. M. LAL, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 26th December 2005

No. 3-7/2004-NI.II.—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC), the President is pleased to appoint Shri G. N. Pegu, IAS (OR : 75), Joint Secretary (Disability Division) in the Ministry of Social Justice and Empowerment, as an ex-officio Director on the Board of Directors of the National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) with effect from the 16th November, 2005 for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier, vice Smt. Jayati Chandra, who has relinquished charge of Joint Secretary in the Ministry.

SARVESH RAI, Dy. Secy.

No. 3-7/2004-NI.II.—In pursuance of Articles 50 and 51 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC), the President is pleased to appoint Shri R. N. Yadav, Deputy General Manager in the Small Industries Development Bank

of India, Faridabad, as an ex-officio Director on the Board of Directors of the National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFD) with immediate effect for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Harsh Kaul, General Manager in the Small Industries Development Bank of India, Ahmedabad.

SARVESH RAI, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS &  
INFORMATION TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION)

New Delhi-110001, the 30th December 2005

No. PF-513/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri B. Sivaramakrishnan, Member (Production), Telecom Commission and ex-officio Secretary to the Government of India shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st December, 2005.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)  
STANDARDISATION TESTING & QUALITY  
CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 26th December 2005

No. 2(2)/2005-PA(TA).—The Director General (STQC) is pleased to appoint Shri Tara Chand, Personnel Assistant, Department of Information Technology, New Delhi as Private Secretary in Electronics Regional Test Laboratory (North), New Delhi a subordinate office under STQC Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on deputation basis, initially for a period of two years with effect from the afternoon of 30.09.2005 on usual terms & conditions of deputation.

SATVIR SINGH, Dy. Dir.

No. 2(2)/2005-PA(TA).—The President is pleased to appoint Shri P. V. Karunakaran, AAO Post and Telecommunications Audit Office, No.7 Ethiraj Salai, Chennai-600 008 as Administrative Officer Grade-I in Electronics Test & Development Centre, Chennai a Subordinate Officer under STQC Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology, in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis, with effect from the forenoon of 07.12.2005 initially for a period of two years on usual terms & conditions of deputation.

SATVIR SINGH, Dy. Dir.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 6th January 2006

No. 3-5/2005-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/21/2005-CS.II dated

21.12.2005, the President is pleased to appoint Shri Shyamal Mukherjee, Private Secretary in the cadre of Ministry of Science & Technology as Principal Private Secretary of CSSS in Department of posts in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 06.01.2006 (F.N.) on ad-hoc basis for the period upto 30.06.2006 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the officer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G. P. PILLAI, Asstt. Dir. Genl. (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 22nd December 2005

No. ERB-I/2005/2/7.—Shri N. D. Sharma, Liaison Officer (Hindi), Railway Board, is appointed as Deputy Director (OL), Railway Board, in Grade Rs. 10,000-15,200/-, with effect from the forenoon of 12.12.2005.

M. K. AGARWAL, Secy.  
Railway Board

The 23rd December 2005

No. ERB-I/2005/2/77.—Shri R. Sivadasan, IRAS, General Manager, C.L.W., is appointed as Financial Commissioner, Railways and ex-officio Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of 30.11.2005.

M. K. AGARWAL, Secy.  
Railway Board

No. ERB-I/2005/2/78.—Shri R. K. Rao, HAG/IRSME, S.C.R., is appointed as Additional Member (ME), Railway Board, in Grade Rs. 24,050-26,000/-, with effect from the forenoon of 05.12.2005.

M. K. AGARWAL, Secy.  
Railway Board

No. ERB-I/2005/2/86.—Shri Mathew John, HAG/RTS, Adviser (Vigilance), Railway Board, is appointed as Additional Member (Vigilance), Railway Board, in Grade Rs. 24,050-26,000/-, with effect from the forenoon of 07.12.2005.

M. K. AGARWAL, Secy.  
Railway Board

The 6th January 2006

No. ERB-I/2005/2/26.—The following Grade-I (Under Secretary/Deputy Director) officers of Railway Board

Secretariat Service (RBSS) have been appointed in Selection Grade (Deputy Secretary/Joint Director : Scale Rs. 12,000-16,500/-) of that service with effect from forenoon of the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
	(S/Shri)	
1.	N. K. Sharma	19.12.2005
2.	Ranjit Singh	19.12.2005
3.	Smt. Sheela Verma	20.12.2005

M. K. AGARWAL, Secy.  
Railway Board

No. E(O)III-2005/RN/27.—Consequent upon his permanent absorption in RITES, Shri Satyendra Kumar, SAG/IRSSE, has resigned from Railway service with effect from 14.12.2005.

M. K. AGARWAL, Secy.  
Railway Board

The 16th January 2006

No. ERB-I/2005/2/88.—Shri A. K. Singh, JAG/RPF, Northern Railway, is appointed as DIG/RPSF (Ops.-I), Railway Board, in Grade Rs. 16,400-20,000/-, with effect from the forenoon of 23.12.2005.

M. K. AGARWAL, Secy.  
Railway Board

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS (DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 12th January 2006

No. LH-21013/1/2004-SL.—The President is pleased to promote Shri T. K. Joseph, in the grade of Superintendent to the post of Executive Officer in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from 16.08.2005 (Afternoon).

V. P. RANA, Under Secy.

No. LH-21013/1/2004-SL.—The President is pleased to promote following Officers in the grade of Technician (General) to the post of Assistant Engineer (Mechanical) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the dates indicated against each :—

1. Shri M. M. Waghela—04.03.2005 (F.N.)
2. Shri Gautam Halder—25.01.2005 (F.N.)

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 13th January 2006

No. A-19011/12/02-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Dinesh Kumar, ICAS (91), Deputy Secretary as Director in the Department of Shipping in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- as a measure personal to him, with effect from 20.12.2005 (FN), for the balance period of his tenure i.e., upto 29.07.2007 or until further orders, whichever is earlier. His tenure will count at the Centre w.e.f. 29.07.2002 (AN).

S. K. SHAHI, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 10th January 2006

No. A-12025/1/2005-E.II.—The President is pleased to appoint the following officers as Assistant Executive Engineer (Civil) in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the dates shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment
1.	Shri Biju Kumar Patir	22.12.2005 (FN)
2.	Shri Jagat Narayan	26.12.2005 (AN)
3.	Shri Subash Chandra	27.12.2005 (FN)

B. N. MISHRA, Under Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (DELHI DIVISION)

New Delhi, the 2nd January 2006

No. K-11011/18/2005-DDIA.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-Section (3) of Section 3 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri A. K. Sarin, Chief Engineer, CPWD as Engineer Member in the Delhi Development Authority in the pay scale of Rs. 18,400-22,400/- + Special pay of Rs. 300/- per month for a period of two years from the date of taking over charge or until further orders whichever is earlier.

PARMJIT SINGH, Desk Officer (DDIA)

#### (DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 9th January 2006

No. A-12025(i)/1/2005-TCPO/Admn.III/U.D.I.—In pursuance of this Ministry's letter of even number dated 05.01.2006, Shri Devendra Bhandari, Associate Town and Country Planner in Town & Country Planning Organisation, New Delhi has assumed the charge of the post of Town and Country Planner (GCS Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 05.01.2006 in the same Organisation.

SUMIT CHATTERJEE, Under Secy.